



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 1984/आषाढ़ 12, 1906

No. 242]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 1984/ASADHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1984

सांकांनि० 491 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के
अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, और :

- (1) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के पदों के भर्ती से संबंधित नियमों, देखिये, अधिसूचना सं० 4 (23)/58-स्था० तारीख 26-12-1958;
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1974;
- (3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (श्रेणी I वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1975;
- (4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नियम (समूह 'क' वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1976;

(5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'क' वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1978;

को अधिकांत करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, समूह "क", राजपत्रित पद (अनुसूचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. प्रारंभिक गठन :—(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य कर रहे

सभी समूह "क" अधिकारी उस तस्मान्ता पदों पर नियुक्त किए गए समझे जाएंगे जो वे प्रारंभिक गठन की तारीख को नियमित आधार पर धारण किए हुए थे।

(2) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में, नियमित आधार पर कार्य कर रहे, कनिष्ठ विश्लेषकों की उनकी ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी I की श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित की जाने वाली ऐसी चयन समिति द्वारा अवधारित की जाएगी, जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य होगा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नाम निर्देशन दो प्रतिनिधि जो उपयुक्त स्थिति के होंगे। चयन समिति, ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगी, और उसका संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगी। उक्त सूची की प्राप्ति पर, आयोग, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी I की श्रेणी में उक्त पाए गए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भेजे।

(3) ऐसे कनिष्ठ विश्लेषक जो उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन नियुक्त नहीं पाए जाते हैं, उनके मामलों का, उनको अनुक्षण अवस्था पर वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी I के रूप में नियुक्त करने के लिए, चयन समिति द्वारा प्रति वर्ष पुनर्विचार किया जाएगा।

(4) ऐसे अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, जिन्हें प्रारंभिक गठन पर नियुक्त किया जाता है, उस तारीख को उनकी अपनी श्रेणी में नियमित आशय पर नियुक्ति के अनुसार, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि श्रेणियों में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता में परिवर्तन नहीं होता है, अवधारित की जाएगी।

(5) उपरोक्त उपनियम (1) और (2) में वर्णित अधिकारियों की इन नियमों के अधीन प्रारंभिक गठन पर उनकी नियुक्ति से पूर्व, नियमित निरन्तर सेवा, परीक्षा अवधि प्रोन्नति पुष्टि और पेंशन के लिए अधिक सेवा के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।

4. भावी अनुक्षण :—(1) उक्त पदों की पूर्ति की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनमें संवर्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तर 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) विभिन्न पदों की अनुसूचियों में यथा परिभाषित निर्धारण बोर्ड की, वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी और ऐसे सभी अधिकारियों के मामलों पर, जो उस वर्ष के जिनमें रिक्तियां संबन्धित हैं, आगामी वर्ष की पहली जनवरी को अपनी-अपनी श्रेणी में, अपेक्षित अर्हक सेवा कर चुके हैं, उनकी अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए विचार करेगी। निर्धारण बोर्ड अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में, उनकी अर्हताएं, कार्य गुणावगुण और ज्येष्ठता को ध्यान में रखेगा।

चयन, गोपनीय रिपोर्टों और साक्षात्कार के आधार पर होगा तथापि, निर्धारण बोर्ड अपने विवेकानुसार किसी ऐसे अधिकारी की, जो साक्षात्कार के लिए स्वयं उपस्थित होने के लिए असमर्थ है, अभ्यर्थिता पर उनकी अनुपस्थिति में विचार कर सकेगा। निर्धारण बोर्ड ऐसे अधिकारियों की, जो अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त निर्धारित किए जाते हैं, एक सूची तैयार करेगा। जहां तक भारत में या विदेश में (मू० नि० 51 के अधीन) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों का संबन्ध है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, उनको, अगली उच्चतर श्रेणी में उस तारीख से प्रोन्नत कर दिया जाएगा, जिस तारीख को यदि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने नहीं गए होते, तो इस प्रकार प्रोन्नत कर दिए जाते :—

(क) ऐसे प्रशिक्षण की अवधि मू० नि० 9(6)(ख) के अधीन झूटी समझी जाती है ;

(ख) उन्हें अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अनुमोदित कर दिया गया है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के सिवाए, जिन्हें विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अयोग्य पाया जाता है, सभी उपलब्ध ज्येष्ठ व्यक्तियों को उक्त श्रेणी में प्रोन्नत कर दिया गया है।

(3) वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II और वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I की श्रेणियों में विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति के विषय में नम्य पूरकता और स्थानास्थ प्रोन्नति की पद्धति का अनुसरण किया जाएगा। यदि निर्धारण बोर्ड अधिकारियों को ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति के लिए योग्य पाता है और ऐसे पदों के लिए उस समय मंजूर पद संख्या में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो यथास्थिति ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II से ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I में और ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I से मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पदों में उन्नयन करके प्रोन्नति दी जा सकेगी। ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II और ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I के बीच बिना किसी निबन्धन के पूर्ण अंतर्निर्भरता होगी सिवाय इसके कि पदधारियों की कुल संख्या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को कनिष्ठ और ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I के पदों की मिलाकर पदों से अधिक नहीं होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को कनिष्ठ और ज्येष्ठ वेतनमानों में अधिकारियों में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होगी जिससे कि कनिष्ठ वेतनमान से ज्येष्ठ वेतनमान में किसी अधिकारी की तब प्रोन्नति सुनिश्चित हो सके जब उसने पूर्व वेतनमान में विहित वर्षों की सेवा कर ली है।

(4) मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (1500-2000 रु०) के स्तर तक प्रोन्नति कुल मिलाकर, रिक्तियों की उपलब्धता के संदर्भ के बिना होगी किन्तु इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि किसी भी समय, इस स्कीम के अधीन इस प्रकार

भरी गई, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पदों की कुल संख्या, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी में पदों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) इस स्कीम के अधीन की गई प्रोन्नति संबंधित अधिकारी की वैयक्तिक प्रोन्नति होगी, और इस कारण निम्न श्रेणी में विनिर्दिष्ट रिक्त नहीं होगी। संबंधित अधिकारी द्वारा उस समय धारित पद उसके प्रोन्नत पद पर बने रहने की अवधि को उन्नत किया जाएगा। जब वह अधिकारी उच्चतर पद को रिक्त कर देगा तो वह पद मूल स्तर के पद पर प्रतिवर्तित हो जाएगा।

निरहंता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिनकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

भर्ती किए गए जिन व्यक्तियों के पास इंजीनियरी की उपाधि है, उनका रक्षा सेवा में सेवा का दायित्व इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व, उसका या उसके पश्चात् उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरी की उपाधि है, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, किन्हीं रक्षा सेवाओं या भारत की रक्षा से संबंधित पदों पर चार वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि है, यदि कोई हो, सेवा करनी होगी, परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति से—

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की सक्षमता के पश्चात् इस प्रकार सेवा करने की;

(ख) चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् साधारणतया इस प्रकार सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

7. भारत में और भारत से बाहर सेवा करने का अधिकारियों का दायित्व : (1) नियुक्त किए गए अधिकारी को भारत में और भारत से बाहर सेवा करनी होगी।

(2) नियुक्त किए गए अधिकारियों को ऐसा प्रशिक्षण देना होगा और उन्हें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भारत में या विदेश में भेजा जाएगा, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे। किसी अधिकारी को जिसे ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है जिसकी अवधि छह मास या उससे अधिक है या किसी अधिकारी को जिसे भारत से बाहर या भारत में प्राइवेट फर्म या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, चाहे उस प्रशिक्षण की अवधि कुछ भी हो। यदि वह प्रशिक्षण के दौरान या ऐसे प्रशिक्षण के पूरा करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा समाप्त करना चाहता है, प्रशिक्षण का पूरा खर्च वापस करना होगा।

8. सेवा निवृत्ति फायदे :—(1) कोई अधिकारी जो इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व पेंशन के लिए या अनिवार्य भविष्य निधि फायदों का पात्र या ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले उसको लागू नियमों द्वारा शासित होता रहेगा।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् पेंशन योग्य आधार पर भर्ती किया गया कोई अधिकारी समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा। सेवा का इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई अधिकारी जो अनिवार्य भविष्य निधि के आधार पर है, अनिवार्य भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होगा।

9. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए चिकित्सा विनियमों और चिकित्सा रिपोर्ट में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानकों के प्रयोजनों के लिए समीपद गैर तकनीकी पद समझे जाएंगे।

10. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी। जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संवन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में विहित पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अवयव पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वरों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम 1972 के नियम 30 के अर्थात् अनुवैय है या नहीं)
1	2	3	4	5	6	6B
1. सहायक (जैव प्रौद्योगिकी)	1* (एक) 1984 *विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति की आव- श्यकताओं के परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	3000/- रुपये (नियत)	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सर- कारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण :—आवृत्ति अथ- वा घाति करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अथ- वा पियों से (उत्पत्ति मित्र जो अन्वयमान और निरु- वार होप तथा लक्ष्य में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की वशा में लागू होंगी या नहीं	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/वर्ती सीधे प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक अर्हताएं (1) किसी माध्यम प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर की उपाधि या इंजी- नियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित विषयों में ओषधि में डाक्टरेट या समतुल्य (2) अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिक/शैक्षणिक संस्थाओं और/या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में 18 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के प्रशासन, योजना, विकास या सम्बन्ध में होना चाहिए। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुवर्णित अभ्यर्थियों की वशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	(1) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष (2) प्रोन्नत किए गए अधिकारी के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिस के अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण/सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय सरकार द्वारा उसके कार्य को अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, विशिष्ट पद की अर्हताओं के अनुसार किया जाएगा। टिप्पण : सीधे भर्ती के लिए आयोजित अपने विवेकानुसार अभ्यर्थियों पर उनके औपचारिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर चयन के लिए विचार कर सकेगा।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अहंता (अहंताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

माँछनीय :

- (1) किसी माय्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय में डाक्ट्रेट या समतुल्य।
- (2) जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन बड़े कार्यक्रम बनाने, उनका प्रबन्ध करने और निवेशन का अनुभव।
- (3) उच्च स्तर का प्रकाशित अनुसंधान कार्य।

टिप्पणी : उपयुक्त अपेक्षित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव का धेख, भर्ती करते समय उपदर्शित किया जाएगा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है)

(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति

चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

स्थानान्तरण :

(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -- अध्यक्ष

(1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/माय्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्द्ध सरकारी, कानूनी या स्वशासी संगठनों में भारत में या विदेश में कार्य कर रहे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद

(क) (1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 2500-3000/2500-2750 रु० के समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्लैब-7 के नीचे अधि-कथित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव हैं।

(2) ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकारों पर भी, जिन्होंने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(2) सचिव, पर्यावरण विभाग -- सदस्य

इलैक्ट्रानिकी विभाग -- सदस्य

समुद्री विकास विभाग -- सदस्य

टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी।

किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

11

12

13

(चौक प्रवर्ग में ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति भी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में एक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में निम्न समूह 'क' पदों के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6
1. सलाहकार (प्रौद्योगिकी उपयोग प्रभाग)	1* (1984) * विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण सेवा समूह 'क' राजपत्ति	2500-125/2 3000 रु०	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे मिला जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
6क	7	8			

- हां आवश्यक अर्हताएं आयु : नहीं
- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साधारण/अनुप्रयुक्त विज्ञान में मास्टर की उपाधि या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या समतुल्य। शैक्षिक अर्हताएं : हां
- (2) अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिकी/जैविकी सरथाओं और/या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव प्रौद्योगिकी/बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकारों और/या विकास से संबंधित क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के प्रशासन, योजना, विकास या समन्वय में और/या प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास की उन्नति में होना चाहिए।
- टिप्पण : अर्हताएं, अथवा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

राष्ट्रीय

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में डिप्लोमा की उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य।
- (2) प्रौद्योगिक और अनुसंधान तथा विज्ञान का अनुभव।
- (3) प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिक या बुद्धिजीवी संपत्ति अधिकारों या औद्योगिक प्रबंध के विकास और उन्नति के उपयोग, अनुकूलन, अंतरण का विकास से संबंधित कार्यक्रम बनाने, उनका प्रबंध करने और निदेशन का अनुभव।
- (4) उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य।

टिप्पण: उपयुक्त अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव का क्षेत्र भर्ती करने समय उपरिर्लित किया जाएगा।

(9)	(10)	(11)
(1) सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए एक वर्ष।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) स्थानान्तरण/सीधे भर्ती द्वारा, प्रत्येक भिन्न के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिर्देशन, सरकार द्वारा उसके कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट पद की अर्हताओं के अनुसार किया जाएगा।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) स्थानान्तरण :
(2) प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए दो वर्ष।	टिप्पण: सीधे भर्ती के लिए आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यासियों पर उनके जीवनवृत्त और वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर चयन के लिए विचार कर सकेगा।	(1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्थ-सहायक, कानूनी, स्वशासी संगठनों में, भारत में या विदेश में कार्य कर रहे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविदों को (1) जो यद्वा पद या 2500-2750 रुपये के या समतुल्य वेतनमान के पदों को धारण किए हुए हैं, या; (2) जिन्होंने 2250-2500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों की 2 वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्लैब 7 के नीचे अभिलेखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
		(2) ऐसे विभागीय संयुक्त सहायकों पर भी जिन्होंने परीक्षा अथवा सफलतापूर्वक पूरा, कर ली है, विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(नोट: प्रयोग में ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की संभावना में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति भी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउन्सिल पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(12)

(13)

(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति

चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

—अध्यक्ष

(2) सचिव,

पर्यावरण विभाग

—सदस्य

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

—सदस्य

समुद्री विकास विभाग

—सदस्य

टिप्पणी: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति को बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तह्द किल्लो में विभिन्न समूह "क" पदों के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6
सहाकार (भूमि विज्ञान)	1(एक)* 1984 *विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति की आवश्यकतानुसार परि- वर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	2500-125/2 -3000 रुपये	नाग्न नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
8(क)	7				8

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने
के लिए निर्णायक तारीख भारत में
रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे
भिन्न जो अस्वस्थ और निरको-
बार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं)
आवेदन प्राप्त करने के लिए
नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

हां

आवश्यक अर्हताएं:

. आयु: नहीं

शैक्षिक अर्हता: हां

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूमि विज्ञान से सुसंगत आधारभूत अनु-
प्रयुक्त भौतिक विज्ञान में मास्टर की उपाधि या भूमि विज्ञान से सुसंगत
किसी शाखा में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या समतुल्य।
- (2) अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिक/शैक्षणिक संस्थाओं और या विज्ञान और
प्रौद्योगिकी संगठनों में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव
भूमि विज्ञान के क्षेत्रों में या सुसंगत क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों
के प्रशासन योजना विकास या समन्वय में होना चाहिए।

टिप्पण: 1 अर्हताएं अथवा सुसंगत अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण: 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनु-
सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब
शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध
नहीं हो सकेंगे।

6क

7

8

- (2) अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी शैक्षिक संस्थाओं और/या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में 8 वर्ष का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष का अनुभव विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना, विकास और समन्वय में, होना चाहिए।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अथवा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्र समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

बांछनीय :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में डिग्री की उपस्थिति या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर की उपस्थिति या समतुल्य।
- (2) समन्वय पालिसी और योजना परि-योजना विकास।

टिप्पण :—

उपयुक्त शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव का क्षेत्र भर्ती करते समय उपर्युक्त किया जाएगा।

9

10

11

- (1) प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के लिये 2 वर्ष।
- (2) सीजे भर्ती किये गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) स्थानांतरण/सीजे भर्ती द्वारा, प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय, सरकार द्वारा उसके कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट पद की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

प्रोन्नति :

ऐसे जे०५ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) :—

स्थानांतरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सर्वे सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में भारत में या विदेश में कार्य कर रहे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक विद्वान :

- क. (1) जो सक्षम पद धारण किए हुए हैं; या
- (2) जिन्होंने 1100-1600 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; और

ब. विचारों पर जोषे नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 के नीचे अधि-स्थित शैक्षिक प्रवृत्तियों और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवृत्ति में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर-बाह्य पद पर नियुक्त की अवधि है, साधारणतया चार वर्षों में अधिक नहीं होगी।

1 (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये) निर्धारण बोर्ड :—

- (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई नामनिर्देशित —अध्यक्ष
- (2) दो या तीन समुचित प्रास्थिति के विभागीय अधिकारी जो सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे —सदस्य
- (3) दो या अधिक विशेषज्ञ जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे —सदस्य

टिप्पणी :—

- (1) ऊपर (2) में उल्लिखित अधिकारी साधारणतया उस स्तर से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिन पर प्रोन्नति के लिए व्यक्तियों पर विचार किया जाता है।
- (2) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से निर्धारण बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमार्ग नहीं होंगी।
- (3) निर्धारण बोर्ड की कार्यवाहियां आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगी।
- (4) निर्धारण बोर्ड की सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी होंगी इसका विनिश्चय आयोग से परामर्श करके किया जायेगा।

2. (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- (1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —अध्यक्ष
- (2) सहायक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य
- (3) संयुक्त सचिव (प्रशा.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —सदस्य

टिप्पणी :—

पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

केन्द्रीय सरकार समूह "क" के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के सिवाय, ध्यान, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में विभिन्न समूह "क" पदों के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6
उपेक्ष वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1	32* (1984) *विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति की आवश्यकता- नुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अनुसूचिकीय) वैज्ञानिक और तकनीकी	1100-50-1600 रु०	वयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रादेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा भ्रमधारित करने के लिए मिथ्याक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उमसे भिन्न जो अन्वमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहने हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।

6(क)	7	8
------	---	---

नहीं

आवश्यक :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या गणित या सांख्यिकी या किसी अन्य अपेक्षित विषय में मास्टर की उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या समतुल्य।
- (2) अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिक/शैक्षिक संस्थाओं और/या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में चार वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब वयन के किसी प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए प्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

मौलनीय :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की उपाधि या इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य।

टिप्पण :—

उपयुक्त शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव का क्षेत्र भर्ती करने समय उपदर्शित किया जायेगा।

- (1) प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए 2 वर्ष।
 (2) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) स्थानान्तरण/सीधी भर्ती द्वारा, प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय, सरकार द्वारा उसके कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट पद की अपेक्षाओं के अनुसार किया जायेगा।

प्रोन्नति :

ऐसे उद्घेष्ट वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है)

स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों में भारत या विदेश में कार्य कर रहे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी विद्वान :

क. (1) जो सद्गुण पद धारण किए हुए हैं; या

(2) जिन्होंने 700-1300 रु० में या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; और

ख. जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 7 के नीचे अधिकाधिक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर-बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

1. (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निर्धारण बोर्ड :—

- (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई नामनिर्देशित —अध्यक्ष
 (2) दो या तीन समुचित प्रास्थिति के विभागीय अधिकारी जो सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा नामनिर्देशित किए जायेंगे —सदस्य
 (3) दो या अधिक विशेषज्ञ जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किए जायेंगे —सदस्य

टिप्पणी :

- (1) ऊपर (2) में उल्लिखित अधिकारी साधारणतया उस स्तर से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिन पर प्रोन्नति के लिए व्यक्तियों पर विचार किया जाना है।
 (2) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से निर्धारण बोर्ड की कार्यवाहियां अधिमान्य नहीं होंगी।
 (3) निर्धारण बोर्ड की कार्यवाहियां आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगी।
 (4) निर्धारण बोर्ड की सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी होंगी इसका विनिश्चय आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

2. (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- (1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग —अध्यक्ष

केन्द्रीय सरकार समूह "क" के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के सिवाय, चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

(2) सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—सदस्य

(3) संयुक्त सचिव (प्रशा.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—सदस्य,

टिप्पण :

पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, आयोग के अनु-
मोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता
है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में विभिन्न समूह "क" पदों के लिए भर्ती नियम

1	2	3	4	5	6
उपेष्ट वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-II	13* (1984) *विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति की आवश्यक- कतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह- क 'राजपत्रित' (अनुसूचिकीय) वैज्ञानिक और तकनीकी	700-40-900-ब० रो०- 40-1100-50- 1300 रु	चयन	28 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे मिले जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

6(क)	7	8
------	---	---

नहीं

आवश्यक :

आयु : नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : हा।

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विज्ञान या गणित या सांख्यिकी या किसी अन्य
अपेक्षित विषय में मास्टर की उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक की
उपाधि या समतुल्य।

टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-
जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है(हैं) जब चयन
के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों
के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय :

अनुसंधान और विकास/प्रौद्योगिक/शैक्षणिक संस्थाओं और/या विज्ञान और प्रौद्योगिकी
में विशेषज्ञीय अनुभव।

टिप्पण : उपयुक्त शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव का क्षेत्र भर्ती करते समय उपदर्शित
किया जाएगा।

- (1) प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए 2 वर्ष
(2) सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष
- प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) स्थानांतरण/सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक रिक्ति के लिए भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय, सरकार द्वारा उसके कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट पद की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

प्रोन्नति :

ऐसे कनिष्ठ विश्लेषक जिन्होंने उम्र श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) स्थानांतरण :—

केंद्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/माध्यमताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/भट्ठे सरकारी या कानूनी या स्वास्थ्य संगठनों में भारत या विदेश में कार्य कर रहे ऐसे वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् :

क (1) जो सशुण पद धारण किए हुए है; या

(2) जिन्होंने 650-1200 रु० के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है; और

ख. जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 7 के नीचे अधिकृत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर-बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

1. (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निर्धारण बोर्ड
- (1) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई नामनिर्देशित—अध्यक्ष
- (2) दो या तीन समुचित प्रास्थिति के विभागीय अधिकारी जो सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे—सदस्य
- (3) दो या अधिक विशेषज्ञ जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे—सदस्य

टिप्पण :

- (1) ऊपर (2) में उल्लिखित अधिकारी साधारणतया उस स्तर से कम से कम एक स्तर ऊपर होंगे जिन पर प्रोन्नति के लिए व्यक्तियों पर विचार किया जाना है।
- (2) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से निर्धारण बोर्ड की कार्य-बाहियां अधिविमान्य नहीं होंगी।
- (3) निर्धारण बोर्ड की कार्यबाहियां आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होंगी।
- (4) निर्धारण बोर्ड की सिफारिशें किस तारीख से प्रभावी होंगी इसका विनिश्चय आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

2. (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति

- (1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—अध्यक्ष
- (2) सहायक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग—सदस्य
- (3) संयुक्त सचिव (प्रशा०) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग— सदस्य
- टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यबाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

केंद्रीय सरकार समूह "क" के किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विषय, चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 1984

GSR 491(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the—

- (i) Recruitment Rules to the posts of Senior Scientific Officers framed by the Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs vide Notification No. 4(23)/58-Estt. dated 26-12-1958.
- (ii) National Committee on Science and Technology (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1974.
- (iii) Department of Science and Technology (Class I Scientific Posts) Recruitment Rules, 1975.
- (iv) Department of Science and Technology (Group A Scientific Posts) Recruitment Rules, 1976.
- (v) Department of Science and Technology (Group A Scientific Posts) Recruitment Rules 1978.

The President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various Group 'A' posts in the Department of Science and Technology, namely:—

1. Short-title and commencement.

- (1) These rules may be called the Department of Science and Technology Group 'A' Gazetted posts (Non-ministerial, scientific and technical) Rules, 1984.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scales of pay:

The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Initial constitution:

- (1) All Group-'A' officers working in the Department of Science and Technology on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the posts corresponding to those which they were holding on regular basis on that date at the initial constitution.
- (2) The suitability of the Junior Analysts working in the Department of Science and Technology

on regular basis on the date of commencement of these rules shall be determined by a Selection Committee to be constituted by the Union Public Service Commission with the Chairman or Member of the Union Public Service Commission as President and not more than two representatives of appropriate status to be nominated by the Department of Science and Technology for their appointment to the grade of Senior Scientific Officer Grade-I. The Selection Committee shall prepare a list of officers considered suitable for such appointment and submit the same to the Union Public Service Commission. On receipt of the said list, the Commission shall forward its recommendations for appointment of the officers found suitable to the grade of Senior Scientific Officer Grade-I to the Department of Science and Technology.

- (3) Such of the Junior Analysts as are not found suitable under sub rule (2) above, their cases will be reviewed by the Selection Committee every year for appointment as Senior Scientific Officer Grade-I at the maintenance stage.
- (4) The inter se seniority of officers in each grade who are appointed at the initial constitution shall be determined as per date of regular appointment to the respective grades subject to the condition that their inter se seniority within their respective grades shall not be disturbed.
- (5) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rules (1) and (2) above prior to their appointment at the initial constitution under these rules, shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

4. Future Maintenance:

- (1) The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as defined in Columns 5 to 13 of the said Schedules.
- (2) The Assessment Board as specified in the Schedules to the various posts shall meet at least once a year and shall consider the cases of all departmental officers, who have rendered the requisite qualifying service in the respective grade on 1st January of the year following the year to which the vacancies pertain to assess their suitability for promotion to the next higher grade. In evaluating the suitability of the officers for promotion, the Assessment Board shall take into consideration their

qualifications, performance, merit and seniority. The selection shall be on the basis of Confidential Reports and interview. However, the Assessment Board may, at their discretion, consider in absentia the candidature of such officer who is unable to present himself for the interview. The Assessment Board shall draw up a list of officers who are assessed as fit for promotion to the next higher grade. In so far as persons undergoing training in India or abroad (under F.R. 51) are concerned, they shall be promoted to the next higher grade with effect from the date they would have been so promoted had they not proceeded on training subject to the following conditions being fulfilled :—

- (a) The period of such training is treated as duty under F.R. 9(6) (b);
 - (b) They have been approved for promotion to the next higher grade;
 - (c) All their seniors, except those regarded as unfit for promotion to the particular grade, available have been promoted to that grade.
- (3) The system of flexible complementing and *in situ* promotion shall be followed in the matter of promotion of departmental officers in the grades of Scientific Officer Grade-II and Scientific Officer Grade-I. If the Assessment Board finds officers fit for promotion to the posts of Senior Scientific Officer Grade-I and Principal Scientific Officer and such posts are not available within the sanctioned strength at that time, the promotion may be given by upgrading the posts of Senior Scientific Officer Grade-II to Senior Scientific Officer Grade-I and those of Senior Scientific Officer Grade-I to Principal Scientific Officer, as the case may be. As between Senior Scientific Officer Grade-II and Senior Scientific Officer Grade-I, there will be complete interchangeability without any restriction except that the total number of incumbents would not exceed the total number of posts of Senior Scientific Officer Grade-II and Senior Scientific Officer Grade-I put together. The Department of Science and Technology will be free to vary the individual numbers in the junior and senior scales so as to ensure promotion of an Officer from junior scale to senior scale after he has put in the prescribed number of years of service in the former.
- (4) The upward movement to the level of Principal Scientific Officer (Rs. 1500—2000) will be,

by and large, without reference to the availability of vacancies, subject to the condition that at any given point of time, the total number of posts so filled in at Principal Scientific Officer level under this scheme would not exceed 30% of the total number of posts in Senior Scientific Officer Grade-II, Senior Scientific Officer Grade-I and Principal Scientific Officer put together.

- (5) Promotions under the scheme will be personal to the officer concerned and would not result in specific vacancy in the lower grade on that account. The post being currently held by the concerned officer will be upgraded for the duration of his stay in the promotion post. The post will revert to the original level once the officer vacates the higher post.

5. Disqualification : No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to any of the said posts..

Provided that the Central Government, may if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Liability to service in the Defences Services for recruits with engineering degrees :

Any person with a degree in Engineering appointed to any of the said posts before, on or after the date of publication of these rules in the Official Gazette, shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or posts connected with the Defence of India for a period not more than four years including the period, if any, spent on training :

Provided that such person shall not be required .—

- (a) to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;
- (b) ordinarily, to serve as after aforesaid attaining the age of forty years.

7. Liability of officers to serve in India and outside :

- (1) Officers appointed shall be liable to serve anywhere in India and outside.
- (2) Officers appointed shall be liable to undergo such training and be detailed on courses of instruction in India or abroad as the

Government may decide from time to time. An Officer detailed for training or course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.

Retirement benefits :

- (1) An officer, who, before the commencement of these rules, was eligible for pension or contributory Provident Fund benefits, shall continue to be governed by the rules applicable to him immediately before such commencement.
- (2) An officer recruited on or after the commencement of these rules, on pensionable basis, shall be governed by the Central Civil Service (Pension) Rules 1972 as amended from time to time. An officer of the service so recruited, who is on Contributory Provident

Fund basis shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules.

9. All posts shall be deemed to be non-technical posts for purposes of Medical standards as specified in the Medical Regulations and Medical Report for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Central Services.

10. Power to relax :

Where the Central Government is of the Opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Saving :

Nothing in these rules shall affect reservations and other concession required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age Limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Adviser (Bio-Technology)	1 (One) (1984)* *Subject to variation depending on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service Group-A Gazetted.	Rs. 3000 (Fixed)	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).
Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).					

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
6(a)	7	8	9	10
Yes	<p>Essential Qualifications.</p> <p>(i) Master's Degree in Science or Bachelor's Degree in Engineering/Technology or Doctorate in Medicine in subjects related to the area of bio-technology from a recognised University, or equivalent.</p> <p>(ii) 18 years' of experience in Research and Development/Industrial/Academic Institutions and/or Science and Technology organisations out of which five years should be in administering, planning, development or coordination of Science and Technology programmes in the area related to the modern Biotechnology.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Doctorate degree in a subject related to Bio-technology from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Experience of evolving managing and directing major programmes under different areas of Bio-technology.</p> <p>(iii) Published research work of high standard.</p> <p>Note : The exact educational qualifications and experience required shall be indicated at the time of recruitment.</p>	<p>Age : No.</p> <p>Educational Qualification : Yes</p>	<p>(i) One year for direct recruit.</p> <p>(ii) 2 years for promotee officer.</p>	<p>By promotion/transfer or deputation (including short-term contract)/transfer/direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.</p> <p>Note : For direct recruitment, the Commission may, at their discretion, consider for selection candidates on the basis of their Bio-data and Scientific attainment.</p>

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

11	12	13
<p>Promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer:</p> <p>(1) Scientists or Technologists working in the Central/ State Governments/Universities/ Recognised Research Institutions/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts ; or (ii) with 2 years' service in posts in the scale of Rs. 2500-3000/2500-2750 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7.</p> <p>(2) The Departmental Joint Advisers who have successfully completed the probation period will also be considered and in case any one of them is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed five years).</p>	<p>Group-'A'</p> <p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</p> <p>(i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman</p> <p>(ii) Secretary, Department of Environment Department of Electronics Department of Ocean Development—Member</p> <p>The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	<p>Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.</p>

1	2	3	4	5	6
1. Adviser (Technology Utilisation Division).	1 (One)* (1984) *Subject to variation depending on the requirement for the promotion of Science and Technology	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 2500-125/2-3000	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).
					Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (Other than those in Anadman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
Yes	Essential Qualifications: (i) Master's Degree in basic/Applied Science or Bachelor's Degree in Engineering/Technology from a recognised University or equivalent.	Age : No Educational Qualification : Yes	(i) One year for direct recruits (ii) 2 years for promotee officers	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer/ direct recruitment; the particular method of recruitment for

- (ii) 15 years' of experience in Research and Development/Industrial/ academic institutions and/or Science and Technology organisations out of which five years should be in administering planning, development or co-ordination of Science and Technology programmes in the areas related to industrial/intellectual property rights and/or development and promotion of industrial Research and Development.

Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Doctorate degree in the relevant subject or Master's degree in Engineering or Technology of a recognised University or equivalent.
- (ii) Industrial and Research and Development experience.
- (iii) Experience of evolving managing and directing programmes related to utilisation, adaptation, transfer or development of technology, industrial or intellectual property rights or development and promotion of industrial management.
- (iv) Published work of high standard.

Note : The exact educational qualifications and experience required shall be indicated at the time of recruitment.

each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.

Note : For direct recruitment, the Commission may, at their discretion, consider for selection candidates on the basis of their Bio-data and Scientific attainment.

Promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer:—

- (1) Scientists or Technologists working in the Central/ State Governments/Universities/Recognised Research institutions/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad :
- (a) (i) holding analogous posts; or posts in the scale of Rs. 2500—2750 or equivalent, or
- (ii) with 2 years service in post in the scale of Rs. 2250—2500 or equivalent; and

Group 'A'

Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)

- (i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman
- (ii) Secretary, Department of Environment Department of Electronics Department of Ocean Development—Members.

The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirma-

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

11

12

13

- (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7.
- (2) The departmental Joint Advisers who have successfully completed the probation period will also be considered and in case any one of them is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed five years).

tion shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4	5	6
1. Adviser (Earth Sciences)	1 (One)* (1984) *Subject to variation depending on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 2500-125/2-3000	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
Yes	Essential Qualifications : (i) Master's Degree in basic or Applied Physical Sciences relevant to earth science; or Bachelor's degree in Engineering/Technology in a branch relevant to earth science from a recognised University or equivalent. (ii) 15 years' of experience in Research and Development/Industrial/academic institutions and/or Science and Technology organisation out of which five years should be in administering planning, development or coordination of Science and Technology programmes in the area of earth science or related areas. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	Age : No Educational Qualification : Yes	(i) One year for direct recruit. (ii) 2 years for promotee officer.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer/direct recruitment; The particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same. Note : For direct recruitment the Commission may, at their discretion, consider for selection candidates on the basis of their Bio-data and Scientific attainment.

6a

7

8

9

10

if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

- (i) Doctorate degree in a subject related to earth science such as Geology, Geophysics, Geo-chemistry, Atmospheric Sciences of a recognised University of equivalent.
- (ii) Experience of evolving, managing and directing major programmes under any branch of earth sciences.
- (iii) Published Research work of high standard.

Note : The exact educational qualifications and experience required shall be indicated at the time of recruitment.

11

12

13

Promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer:—

- (1) Scientists or Technologists working in the Central/ State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government Statutory or Autonomus Organisations in India or abroad :
- (a) (i) holding analogous posts or posts in the scale of Rs. 2500-2750 or equivalent, or
- (ii) with 2 years' service in posts in the scale of Rs. 2250-2500 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7.
- (2) The Departmental Joint Advisers who have successfully completed the probation period will also be considered and in case any one of them is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed five years).

Group 'A'

Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)

- (i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman
- (ii) Secretary, Department of Environment, Department of Electronics, Department of Ocean Development—Member.

The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

1	2	3	4	5	6
1. Adviser (Science and Technology Promotion).	1 (One)* (1984) *Subject to variation depending on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 2500-125/2-3000	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).					

6(a)	7	8	9	10
Yes	<p>Essential Qualifications:—</p> <p>(i) Masters' Degree in Science/Mathematics/Statistics/or in any other subject or Bachelor's degree in Engineering/Technology from a recognised university or equivalent.</p> <p>(ii) 15 years' of experience in Research and Development/Industrial/academic institutions and/or Science and Technology organisations out of which five years should be in administering, planning, development or coordination of Science and Technology programmes in the required area(s).</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable:—</p> <p>(i) Doctorate degree in relevant subject or Master's degree in Engineering or Technology of a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Published research work of high standard.</p> <p>(iii) Ability to evolve, managing new research programmes of Inter-disciplinary nature.</p> <p>Note:—The exact educational qualifications and area of experience shall be indicated at the time of recruitment.</p>	<p>Age : No Educational Qualifications : Yes</p>	<p>(i) One year for direct recruit.</p> <p>(ii) 2 years for promotee officer.</p>	<p>By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer/direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.</p> <p>Note :—For direct recruitment the Commission may, at their discretion, consider for selection candidates on the basis of their Bio-data and Scientific attainment.</p>

11	12	13
Promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer.	Group-'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Selection on each occasion shall be made in consultation with the U.P.S.C
(1) Scientists or Technologists working in the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad.	(i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman.	
(a)(i) holding analogous post or posts in the scale of Rs. 2500-2750 or equivalent, or	(ii) Secretary, Department of Environment, Department of Electronics and Department of Ocean Development—Members.	
(ii) with 2 years service in posts in the scale of Rs. 2250-2500 or equivalent; and		
(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 7.	The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or member of the Union Public Service Commission shall be held.	
(2) The departmental Joint Advisers who have successfully completed the probation period will also be considered and in case any one of them is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.		
(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed five years).		

1	2	3	4	5	6
1. Joint Adviser	1(One)*(1984) *Subject to variation dependent on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 2500-125/2-2750	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Govt.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
Yes	Essential : (i) Master's Degree in Science or Mathematics or Statistics or in any other required subject or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised university or equivalent. (ii) 12 years' experience in Research and Development/Industrial/academic institutions and/or Science and Technology organisations out of which five years should be in administering, planning, development or coordination of Science and Technology programmes. Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public	Age : No Educational Qualifications : Yes	(i) 2 years for promotee Officer. (ii) 1 year for direct recruit.	By promotion/transfer, on deputation (including short-term contract)/transfer/direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.

6a	7	8	9	10
	Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. •			
	Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
	Desirable :			
	(i) Doctorate degree in the relevant subject or Master's degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent.			
	(ii) Experience of working with financial institutions, entrepreneurship development and adaption, development and transfer of technology.			
	(iii) Published work of high standard.			
	Note : The exact educational qualifications and area of experience shall be indicated at the time of recruitment.			

11	12	13
Promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer:—	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.
(1) Scientists/or Technologists working in the Central/ State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government Statutory or Autonomus Organisations in India or abroad :	(i) Secretary, Department of Science and Technology —Chairman	
(a) (i) holding analogous posts; or	(ii) Adviser, Department of Science and Technology —Member	
(ii) with 2 years' service in posts in the scale of Rs. 2250-2500 or equivalent; or	The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.	
(iii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 2000-2250/2500 or equivalent; and		
(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7.		
(2) The departmental Directors with 5 years regular service in the grade will also be considered and in case any of them is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.		
(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed five years.)		

1	2	3	4	5	6
1. Director	12* (1984) * Subject to Variation dependent on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service, Group- 'A' Gazetted.	Rs. 2000-125/2- 2500	Selection	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
Yes	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Science or Mathematics or Statistics or in any other required subject or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised university or equivalent.</p> <p>(ii) 10 years' experience in Research and Development/Industrial/academic institutions and/or Science and Technology organisations out of which five years should be in a managerial capacity for Science and Technology programme, planning, development and Coordination.</p> <p>Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable :</p> <p>(i) Doctorate degree in the relevant subject or Master's degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Experience of handling Science and Technology programme under different environments.</p> <p>Note : The exact educational qualifications and area of experience shall be indicated at the time of recruitment.</p>	<p>Age : No Educational Qualifications : Yes</p>	<p>(i) 2 years for promotee officers (ii) 1 year for direct recruits.</p>	<p>By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer/ direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.</p>

11	12	13.
<p>Promotion: Principal Scientific Officers with 5 years regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer:—</p> <p>Scientists or Technologists working in the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations in India or abroad:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 2 years' service in posts in the scale of Rs. 1800-2000 or equivalent; or (iii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 1500-2000 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7.</p> <p>(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including the period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed five years).</p>	<p>1. Assessment Board (for considering promotion)</p> <p>(i) Chairman or member of the Union Public Service Commission or a nominee of the Union Public Service Commission—Chairman</p> <p>(ii) Two or three departmental officers of appropriate status nominated by the Secretary, Department of Science and Technology—Members.</p> <p>(iii) Two or more experts to be nominated by the Union Public Service Commission—Members.</p> <p>Note :</p> <p>(i) The officers mentioned at (ii) above should normally be at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.</p> <p>(ii) The absence of a member of the Board other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.</p> <p>(iii) The proceedings of the Assessment Board will be subject to approval by the Commission.</p> <p>(iv) The date from which the recommendations of the Assessment Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.</p> <p>2. Group 'A' Departmental Promotion Committee</p> <p>(for considering confirmation)</p> <p>(i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman</p> <p>(ii) Adviser, Department of Science and Technology—Member.</p> <p>(iii) Joint Secretary (Administration), Science and Technology—Member.</p> <p>The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	<p>Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion except for appointment on deputation of a Central Government Group 'A' Officer.</p>

1	2	3	4	5	6
1. Principal Scientific Officer	28* (1984) *Subject to variation dependent on the requirement for the promotion of Science and Technology	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	Rs. 1500-60-1800-100-2000	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
Yes	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's Degree in Science or Mathematics or in any other required subject or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) 8 years' experience in Research and Development / Industrial / academic institutions and/or Science and Technology organisation out of which four years should be in Science and Technology programme, planning, development and co-ordination.</p> <p>Note 1—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable</p> <p>(i) Doctorate degree in the relevant subject or Master's degree in Engineering/Technology from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) Co-ordination policy and planning project development.</p> <p>Note—The exact educational qualifications and area of experience shall be indicated at the time of recruitment.</p>	<p>Age : No Educational Qualifications : Yes</p>	<p>(i) 2 years for promotee officers</p> <p>(ii) 1 year for direct recruits.</p>	<p>By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer/direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.</p>
	11	12	13	
	<p>Promotion :</p> <p>Senior Scientific Officer Grade I with 5 year's regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation (including short-term contract)/transfer :-</p> <p>Scientists or Technologists working in the Central/State Government/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government, Statutory or Autonomous organisations in India or abroad :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts; or</p> <p>(ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7.</p> <p>(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible</p>	<p>1. Assessment Board (For considering promotion) :</p> <p>(i) Chairman or member of the Union Public Service Commission or a nominee of the Union Public Service Commission—Chairman.</p> <p>(ii) Two or three departmental officers of appropriate status nominated by the Secretary, Department of Science and Technology—Members.</p> <p>(iii) Two or more experts to be nominated by the Union Public Service Commission—Members.</p> <p>Note :</p> <p>(i) The officers mentioned at (ii) above should normally be at least one level</p>	<p>Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion except for appointment on deputation of a Central Government Group 'A' Officer.</p>	

11

12

13

for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not exceed four years).

above the level for which the person are to be considered for promotion.

- (ii) The absence of a member of the Board other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board.
- (iii) The proceedings of the Assessment Board will be subject to approval by the Commission.
- (iv) The date from which the recommendations of the Assessment Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.

2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

- (i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman.
- (ii) Adviser, Department of Science and Technology—Member.
- (iii) Joint Secretary (Administration), Department of Science and Technology—Member.

The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4	5	6
1. Senior Scientific Officer Grade-I	32* 1984 *Subject to variation dependent on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial, Scientific and Technical).	Rs. 1100-50-1600.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (Other than those in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
No	Essential : (i) Master's Degree in Science or Mathematics or Statistics or in any required subject or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent.	Age : No Educational Qualifications : Yes	(i) 2 years for promotee officers. (ii) 1 year for direct recruits.	By promotion/transfer on deputation (including short term contract)/transfer/direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided

6a	7	8	9	10
	(ii) 4 year's experience in Research and Development / Industrial / academic institutions and/or Science and Technology organisations.			by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirements of the same.
	Note 1—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.			
	Note 2—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these Communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
	Desirable : Doctorate degree in the relevant subject or Masters degree in Engineering/Technology from a recognised university or equivalent.			
	Note:—The exact educational qualifications and area of experience shall be indicated at the time of recruitment.			

11	12	13
Promotion : Senior Scientific Officer Grade II with 5 years' regular service in the grade.	1 Assessment Board (for considering promotion) : (i) Chairman of member of the Union Public Service Commission or a nominee of the Union Public Service Commission—Chairman. (ii) Two or three departmental officers of appropriate status nominated by the Secretary, Department of Science and Technology—Members. (iii) Two or more experts to be nominated by the Commission—Members.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission on each occasion except for appointment on deputation of a Central Government group 'A' Officer.
Transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer :— Scientists or Technologists working in the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government, Statutory or Autonomous organisations in India or abroad : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7. (The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years).	Note : (i) The officers mentioned at (ii) above should normally be at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion. (ii) The absence of a member of the Board other than the Chairman of shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board. (iii) The proceedings of the Assessment Board will be subject to approval by the Commission. (iv) The date from which the recommendations of the Assessment Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.	

11

12

13

2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

- (i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman.
- (ii) Adviser, Department of Science and Technology—Member
- (iii) Joint Secretary (Administration), Department of Science and Technology—Member.

The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4	5	6
1. Senior Scientific Officer Grade-II	13* (1984) *Subject to variation dependent on the requirement for the promotion of Science and Technology.	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial, Scientific and Technical).	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50 1300.	Selection	Not exceeding 28 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government).
					Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (Other than those in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).

6(a)	7	8	9	10
No	Essential : (i) Master's Degree in Science or Mathematics or Statistics or in any other required subject or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised University. Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing, the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age : No Educational Qualifications : Yes	(i) 2 years for promotee officers (ii) 1 year for direct recruits.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/transfer/direct recruitment; the particular method of recruitment for each vacancy being decided by the Government in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirement of the same.

6a	7	8	9	10
	Desirable : Specialised experience in Research and Development/Industrial/academic institutions and/or Science and Technology organisations. Note : The exact educational qualifications and area of experience shall be indicated at the time of recruitment.			

11	12	13
<p>Promotion : Junior Analyst with 3 years' regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract)/ transfer :— Scientists or Technologists working in the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Semi-Government Statutory or Autonomous organisations in India or abroad : (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 3 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column 7. (The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>1. Assessment Board (for considering promotion). (i) Chairman or member of the Union Public Service Commission or a nominee of the Union Public Service Commission—Chairman. (ii) Two or three departmental officers of appropriate status nominated by the Secretary, Department of Science and Technology—Members. (iii) Two or more experts to be nominated by the Commission—Members. Note : (i) The Officers mentioned at (ii) above should normally be at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion. (ii) The absence of a member of the Board other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board. (iii) The proceedings of the Assessment Board will be subject to approval by the Commission. (iv) The date from which the recommendations of the Assessment Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission. 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation). (i) Secretary, Department of Science and Technology—Chairman. (ii) Adviser, Department of Science and Technology—Member. (iii) Joint Secretary (Administration), Department of Science and Technology—Member. The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	<p>Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.</p>

[F. No A-12018/3/81-Adm.I]
R.N. CHOPRA, Director (Admn.)